



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-05122023-250416
CG-UP-E-05122023-250416

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4934]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2023/अग्रहायण 13, 1945

No. 4934]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2023/AGRAHAYANA 13, 1945

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

झाँसी, 28 नवम्बर, 2023

का.आ. 5159(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “झाँसी: सांक गुड्स शेड में एप्रोच रोड का चौड़ीकरण एवं पक्काकरण” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुरैना, मध्य प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या

तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य व्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना झाँसी: सांक गुड्स शेड में एप्रोच रोड का चौड़ीकरण एवं पक्काकरण के साथ मुरैना में गुड्स शेड में एप्रोच रोड का चौड़ीकरण एवं पक्काकरण के लिए मुरैना जिले के बानमोर तहसील में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं-	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बानमोर	जरारा	117(S)	0.0108
2	बानमोर	जरारा	122(S)	0.0324

[ई. फा. सं. एन.सी.आर.-जे.एच.एस.0.ई.एन.जी.जी(लैन्ड)/21/2023-ओ/ओ.डी.ई.एन/को/जे.एच.एस./एन.सी.आर.-
(कम्प्यूटर सं. 90285)]

एस. सी. जैन, प्रमुख मुख्य अभियन्ता

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (CONSTRUCTION DEPARTMENT)]

NOTIFICATION

Jhansi, the 28th November, 2023

S.O. 5159(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, “**JHS: Widening & pucca of approach road at Sank goods shed**” in the district of Morena in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Sub-Divisional Officer, Revenue and Land Acquisition Officer, Morena, Madhya Pradesh** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely JHS: Widening & pucca of approach road at Sank goods shed Project Under Banmore Tehsil of Morena District in the state of Madhya Pradesh.

Sl. No.	Tehsil name	Village Name	Plot No.	Area (Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Banmore	Jarara	117(S)	0.0108
2	Banmore	Jarara	122(S)	0.0324

[e-file No. NCR-JHS0ENGG(LAND)/21/2023-O/o Sr.DEN/CO/JHS/NCR (Computer No.90285)]

S. C. JAIN, Principal Chief Engineer